

**@shahjahanpupol**

**प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 08.02.2021**

**थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,**

**मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा,  
करीब 70 लाख रुपये की 2.50 किलो अफीम सहित 03 तस्करो को किया गिरफ्तार।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर प्रभावी रोकथाम व तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना तिलहर पुलिसको बड़ी सफलता मिली।

दिनांक 07.02.2021 की रात्रि में चैकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति के दौरान **चीनी मिल्स ग्राउण्ड से पहले ही सडक पर किसान युनियन कार्यालय के सामने समय 21.00 बजे तीन व्यक्तियों** को ढाई किग्रा0 अफीम पंजाब ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों 1-आरिफ से 900 ग्राम अफीम व 550 रू0 2-अभि0 इकरार हुसैन से 01 किग्रा0 अफीम व 300 रू0 3-अभि0 धर्मेन्द्र कुमार से 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। इस संबंध में थाना तिलहर थाना तिलहर पर 1. मु0अ0स0 71/21 बनाम आरिफ 2. मु0अ0स0 72/21 बनाम इकरार हुसैन 3. मु0अ0सं0 73/21 बनाम धर्मेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 8/18 NDPS ACT का पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार किये गये अभि0 गण का विवरण:-**

- 1-आरिफ पुत्र कबीर अहमद निवासी मोहल्ला एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जिला बरेली
- 2-इकरार हुसैन पुत्र सद्दीक निवासी मोहल्ला एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जिला बरेली
- 3-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी मंडोरा थाना अलीगंज जिला बरेली

**पूछताछ विवरण -**

अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से की गयी पूछताछ पर बताया कि हम लोग शामी अली जो झारखण्ड का रहने वाला है से अफीम मंगाकर व लोकल में अफीम की खेती करने वाले किसानों से अफीम बड़ी मात्रा में खरीदकर पंजाब में जाकर फुटकर में बेच देते हैं जिससे हमें काफी कमाई हो जाती है। आज हम इसे बेचने हेतु पंजाब में ले जा रहे थे कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया। प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

**पंजीकृत अभियोग -**

- 1-मु0अ0स0 71/21 अन्तर्गत धारा 8/18 NDPS ACT
- 2-मु0अ0स0 72/21 अन्तर्गत धारा 8/18 NDPS ACT
- 3-मु0अ0स0 73/21 अन्तर्गत धारा 8/18 NDPS ACT

**बरामदगी का विवरण -**

- 1-कुल 2.5 किलोग्राम अफीम (कीमत करीब 70 लाख रुपये)
- 2-1450/- रुपये नगद।

**पुलिस टीम का विवरण:-**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीन सोलंकी थाना तिलहर
- 2-व०उ०नि० श्री सुभाष कुमार थाना तिलहर
- 3- हे० का० 373 आमिर हसन थाना तिलहर
- 4--हे०का० मिर्जा जुबैर बेग थाना तिलहर
- 5-हे०का० सलमान खान थाना तिलहर
- 6-आरक्षी 54 रामबाबू थाना तिलहर
- 7-आरक्षी 310 मनोज थाना तिलहर